



JJ-1214

B.Com. (Part - III)
Term End Examination, 2019

Paper - II

Indirect Taxes

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 75

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Answer all questions. All questions carry equal marks.

इकाई / Unit-I

1. एक कम्पनी ने 12000 रंगीन T.V. बनाए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध हैं :

(a) T.V. का खुदरा मूल्य ₹ 15,000 है जिसमें उत्पाद शुल्क शामिल है।

(2)

- (b) थोक व्यापारियों को 8000 T.V. बेचे। उन्हें खुदरा मूल्य पर 20% बट्टा दिया गया।
- (c) फुटकर में ग्राहकों को 2000 T.V. बेचे।
- (d) शेष 2000 T.V. कारखाने से नहीं निकाले गए हैं।
- (e) कम्पनी ने T.V. बनाने के लिए जो Inputs खरीदे उनका मूल्य ₹ 3,00,00,000 है। इसमें ₹ 40,00,000 मूल उत्पाद शुल्क शामिल है।
- (f) अभी ₹ 25,00,000 के Inputs स्टॉक में हैं।
- (g) कम्पनी को 12% से मूल उत्पाद शुल्क देना है जिस पर 3% शिक्षा उपकर भी देय है।

देय उत्पाद-शुल्क की गणना कीजिए।

A company manufactured 12000 coloured T.V. In this connection the following informations are available :

- (a) Retail Price of the T.V. is ₹ 15,000. It includes Excise Duty.

(3)

- (b) Sold 8000 T.V. to wholesalers. Discount allowed @ 20% on Retail Price.
- (c) T.V. sold to customers in retail 2000.
- (d) The balance 2000 T.V. not removed from factory.
- (e) The company purchased inputs for manufacture of T.V. ₹ 3,00,00,000. It includes basic Excise Duty ₹ 40,00,000.
- (f) The Closing Stock of inputs is ₹ 25,00,000.
- (g) The company is liable to pay basic Excise Duty @ 12% on which Edu. cess @ 3% is also charged.

Determine the Excise Duty payable.

अथवा / OR

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया जो एक निर्माता को अपनानी है, संक्षिप्त में लिखिए।

Briefly give the general procedure of central Excise Duty to be adopted by a manufacturer.

(4)

इकाई / Unit-II

bastarcollege.blogspot.com

2. मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय एवं कब्जा के सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभा को प्रदत्त अधिकारों की विवेचना कीजिए।

Describe the rights conferred to Gram Panchayats and Gram Sabha in respect of manufacture, sale and possession of liquor as prescribed in Chhattisgarh Excise Act.

अथवा / OR

कोण्डागांव के भण्डार गृह से सितम्बर 2014 में निम्नलिखित मादक पदार्थ निर्गमित किए गये :

देशी मदिरा सादी	2950 प्रूफ लीटर
देशी मदिरा मसालेदार	5050 प्रूफ लीटर
मिलिट्री संगठन को व्हिस्की	2400 प्रूफ लीटर
भांग घोट की दुकान के लिए अनुज्ञप्तिधारी को भांग	400 किलोग्राम
लाइसेन्सधारी व्यापारी को वाइन (मूल्य ₹ 1,750 प्रति प्रूफ लीटर)	8000 प्रूफ लीटर

(5)

व्यापारी को भांग उपभोक्ता
के लिए 1000 किलोग्राम

अधिकृत मिलिट्री कैन्टीन
को बीयर 1260 बल्क लीटर

बीयर बार को बीयर 5000 बल्क लीटर

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
कैन्टीन को बीयर 28200 बल्क लीटर

ठेकेदारों को विदेशी शराब
(मूल्य ₹ 1,900 प्रति केस) 2300 प्रूफ लीटर

संग्रहित आबकारी शुल्क की गणना छत्तीसगढ़
आबकारी शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित
दरों से कीजिए।

The following intoxicants were issued from
Kondagaon warehouse in the month of
September 2014 :

Plain country liquor 2950 Proof Litres

Spiced country liquor 5050 Proof Litres

Whisky to Military Org. 2400 Proof Litres

Bhang to licence holder for shop of Bhang Ghota	400 Kilograms
Wine to a licence holder (Rate ₹ 1,750 per proof litre)	8000 Proof Litres
Bhang to a trader for consumers	1000 Kilogram
Beer to authorised Military Canteen	1260 Bulk Litres
Beer to Beer Bar	5000 Bulk Litres
Beer to Indo-Tibetan Border Police	28200 Bulk Litres
Foreign liquor to contractors (Rate ₹1,900 per case)	2300 Proof Litres

You are required to compute the amount of Excise Duty payable under Chhattisgarh Excise Act.

इकाई / Unit-III

- रिलायेवल इण्डस्ट्रीज ने अमेरिका से कुछ मशीनों का आयात किया जिसका पूर्तिकर्ता द्वारा 2700 डॉलर चार्ज किया गया। ये मशीनें हवाई जहाज द्वारा भेजी गई जिसका भाड़ा 760 डॉलर चुकाया गया। मार्गस्थ बीमा 104 डॉलर एवं पैकिंग व्यय

(7)

50 डॉलर हैं। पैकिंग व्यय मशीनों के मूल्य में सम्मिलित हैं।

सीमा शुल्क एवं शुल्क योग्य मूल्य का निर्धारण कीजिए यदि विनिमय दर एक डॉलर = ₹ 50 है :

- (i) सीमा शुल्क मूल @ 10%
- (ii) अतिरिक्त सीमा शुल्क @ 8%
- (iii) विशिष्ट अतिरिक्त सीमा शुल्क @ 4%
- (iv) शिक्षा उपकर @ 3%

उपर्युक्त प्रकार की मशीनों का निर्माण भारत में नहीं होता है।

Reliable Industries Ltd. (India) imports some machines from USA and the supplier charges 2700 dollars. These machines have been sent by air service and air freight has been paid 760 dollars. Transit insurance premium was paid 104 dollars. Packing charges were 50 dollars which were included in aforesaid price.

Find out assessable value and Custom Duty Payable if the exchange rate is 1 Dollar = ₹ 50 :

(8)

- (i) Basic Customs Duty @ 10%
- (ii) Additional Customs Duty @ 8%
- (iii) Special Additional Duty @ 4%
- (iv) Education cess @ 3%

Aforesaid machines are not manufactured in India.

अथवा / OR

यात्री के बिना साथ आये बैगेज एवं कारगो के सम्बन्ध में नियमों को समझाइए।

Explain rules regarding unaccompanied Baggage and Cargo of passenger.

इकाई / Unit-IV

4. एक व्यापारी की 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए विक्रय (वैट सहित) निम्नलिखित हैं :

₹

अनाज, दालें, चीनी एवं नमक
(राज्य में कर मुक्त) 2,00,000

(9)

	₹
अंश एवं प्रतिभूतियाँ	50,000
राज्य में अन्य माल का विक्रय	4,00,000
भारत से निर्यात	3,00,000
दूसरे राज्य में माल खरीदकर वहीं बेचा	60,000
अन्तर्राज्यीय विक्रय जिस पर कर की दर 8% है	2,16,000
राज्य सरकार को अन्तर्राज्यीय विक्रय (राज्य में कर की दर 2% है)	51,000
फॉर्म C पर पंजीकृत व्यापारी को अन्तर्राज्यीय विक्रय (राज्य में कर की दर 2% है)	1,02,000
अन्य राज्य में स्थित शाखा को फॉर्म F पर माल भेजा	2,00,000
केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम के अन्तर्गत सकल विक्रय एवं कर-योग्य आवर्त का निर्धारण कीजिए।	

(10)

The sales of a dealer for the year ending 31st March 2014 (Including VAT) are as under :

	₹
Cereals, pulses, sugar and salt (exempt in the state)	2,00,000
Shares and Securities	50,000
Other goods sold in the State	4,00,000
Exports from India	3,00,000
Goods purchased and sold in other state	60,000
Inter-state sale on which rate of tax is 8%	2,16,000
Inter-state sale to a State Government (Sales Tax rate 2%)	51,000
Inter-state sale to a registered dealer on form C (State tax rate 2%)	1,02,000
Goods sent to branch located in other state on form F	2,00,000

Determine Gross turnover and taxable turnover under the C.S.T. Act of the dealer.

अथवा / OR

केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम में 'माल के पुनर्विक्रय' से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के विक्रय पर कर-निर्धारण के क्या प्रावधान हैं?

What do you understand by 'subsequent sale of goods' under the C.S.T. Act? What are the provisions relating to assessment of tax on such sales?

इकाई / Unit-V

5. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक-कर अधिनियम के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण से संबंधित प्रावधान बताइए।

Explain the provisions relating to Re-assessment under the Chhattisgarh Commercial Tax Act.

अथवा / OR

एक व्यापारी का कुल विक्रय निम्नलिखित है :

₹

मूंगफली - छत्तीसगढ़ राज्य में 2,00,000

कपास बीज - अपंजीकृत व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को 2,00,000

(Turn Over)

	₹
मेथी - किसानों से क्रय कर फर्म C पर विक्रय	1,00,000
फूलों के बीज	50,000
ताजे फल	20,000
ताजे फूल	45,000
धनिया बीज किसानों को	10,000
लाल सूखी मिर्च (पंजीकृत मसाला उद्योग को)	1,25,000
लहसुन दवाई बनाने के लिए	50,000
सरकारी स्टाम्प	30,000
उपर्युक्त जानकारी के आधार पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक-कर अधिनियम के अनुसार कर-योग्य विक्रय की राशि ज्ञात कीजिए।	

A trader has the following total sales :

	₹
Groundnut - in Chhattisgarh state	2,00,000
Cotton seeds - to unregistered dealers and customers	2,00,000

(13)

	₹
Methi – sale on form C (after purchase from farmers)	1,00,000
Flower seeds	50,000
Fresh fruits	20,000
Fresh flowers	45,000
Dhaniya seeds to farmers	10,000
Red dry chilly (to registered masala udyog)	1,25,000
Garlic for medicine	50,000
Government Stamps	30,000

On the basis of above information compute
the Taxable Turnover under the Chhattisgarh
Commercial Tax Act.

bastarcollege.blogspot.com